



CIN -L31501HR1973PLC007543

2nd Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110 008 (India) **Ph.**: +91-11-25810093-96, 47108000 **Fax**: +91-11-25789560

E-mail: cs@surya.in Website: www.surya.co.in

SRL/24-25/28 September 21, 2024

The Secretary
The Stock Exchange, Mumbai
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500336

The Manager (Listing Department)
The National stock Exchange of India Ltd
Mumbai – 400 051
NSE Symbol: SURYAROSNI

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose e-copies of newspaper advertisement published on 21st September, 2024 related to Notice of Postal Ballot and Remote E-voting Information to the Equity Shareholders in following newspapers:

- 1 Business Standard (English Edition) New Delhi
- 2. Business Standard (Hindi Edition) Chandigarh

The above information is also available on the website of the Company www.surya.co.in

The date and time of occurrence of the event is 21st September, 2024 at 10:00 A.M

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully For Surya Roshni Limited

B. B. SINGAL CFO & COMPANY SECRETARY

Enclosed: as above

hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s' that the below described the immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which have been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Branch Bassi, Distt. - Chittorgarh (Raj.), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned account/s The detáils of Borrower(s) /Mortgagor (s)/ Guarantor (s) /Secured Asset/s/Dues/Reserv Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below-Name & address of Borrower/s/ Guarantor/s: Mr. Virendra Singh Meena S/o Mr Jagdish Singh (Borrower) <u>Add</u>. House No. 86, Shri Ram Colony Residential Scheme Village- Ghosundi, Tehsil- Bassi, District- Chittorgarh (Raj.)-312022; <u>Mrs. Rekha Dev</u> W/o Mr. Virendra Singh Meena (Co-borrower) <u>Add</u>. House No. 86, Shri Ram Colony Residential Scheme, Village- Ghosundi, Tehsil- Bassi, District- Chittorgarh (Raj.)-312022

Demand Notice Date and dues: 18/06/2024; Rs. 25,79,911.69/- as on 17/06/2024 (inclusive of interest upto 16/06/2024)+ further applicable interest, cost, charges & other expenses etc. Present Outstanding Amount: Rs. 25,79,911.69/- as on 17/06/2024 (inclusive of interest upto 16/06/2024) + further applicable interest, cost, charges & other expenses etc. Status of Possession: Symbolic Possession Date of property inspection is 26/09/2024 & 17/10/2024; Time: 12.00 Noon to 03.00 P.M Last date & time for submission of EMD and documents by 23/10/2024 upto 4:00 P.M.

Date & Time E-Auction :- 24/10/2024 & 2.00pm to 6.00 P.M (with unlimited extensio

of 10 min. each) Description of the Immovable Property with Reserve Price/EMD/ Bid Increase Amt. Residential property situated at House No. 86, Shri Ram Colony Residential Scheme, Village- Ghosundi, Tehsil- Bassi, District- Chittorgarh (Raj.) measuring 1000 Square Feets in the name of Mrs. Rekha Devi W/o Mr. Virendra Singh Meena; Bounded by:- On the East by Residential Plot No. 87, On the West by Common Road On the South Rs. 27,94,680/-**Earnest Money Deposit** Rs. 2.79.468/-**Bid Increase Amount** Road, On the North by Common Road, On the South by Agriculture Land; **Encumbrance: - Not Known.**

or detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in thtps://bkray.in, Also, prospective bidders may contact the authorized officer on Mobile No. 8875006606 Date: 20/09/2024; Place: Chittorgarh (Raj.) Authorised Officer, Bank of Baroda

ELECTRONICA FINANCE LIMITED Audumbar, 101/1, Erandwane, Dr Ketkar Road, Pune 411004, Maharashtra, Indi

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Whereas the Authorized officer of M/s Electronica Finance Limited, a Non-**Banking Financial Institution** under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 Of 2002) (hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") having its Registered Office at Audumber, Plot No 101/1, Dr. Ketkar Road, Opp. To Paranjape Builder Office, Erandwane, Pune-411004 (hereinafter referred to as "EFL") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 01.02.2024 and nublished on 06.02.2024 upon you the undernamed -

- Duggu Communications, D-30, Karan Kunj, Maheshwari, Rewari, Haryana 124106, India.
- 2. Surendra Kumar, Hiuse N. D30, Karankuni, Maaheniawas Maheshwari Rewari, Harvana- 123106, India.
- 3. Mithun Kumar Singh. House No. D 30. Karan Kuni. Maheshwari 293. Rewari
- Haryana-123106, India. 4. Savita Kumari, O Malik Tola, Kail Siwan, Gopalganj, Bihar-841438, India

This is to inform you that the Notice dated 01.02.2024 issued under Section

13(2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcemen of Security Interest Act, 2002 being served upon no.1&4 of you on 13.02.2024 and to no.2&3 of you on 14.02.2024, thereby calling upon you to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 21,56,686/- (Twenty-One Lakhs Fifty-Six Thousand Six Hundred and Eighty-Six Only) along with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice vide Loan Numbe APPL00030628 (LOAN000005014644).

"The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereb given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the 20th day of September 2024.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned in Schedule I and any dealings with the property described in Schedule I shall be subject to the charge of "EFL" for an amount o being Rs. 21,56,686/- (Twenty-One Lakhs Fifty-Six Thousand Six Hundred and Eighty-Six Only) and interest other charges thereon.

The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES IS AS UNDER: - I

PROPERTY 1 All that piece and parcel of property bearing land area measuring 125 sq. vards, comprised in Khewat No. 35, Khatoni No. 36, Rect No. 51, Killa No 9/2/1(7-1), Kita 1, area measuring 7 kanal 1 marla upto extent of 4/141 share 4 marla, situated in the revenue estate of village Ghatal Mahaniwas, sub-tehsil daruhera, distt. Rewari, Haryana. (Hereinafter referred to as the "Property in question")- Boundary of the aforesaid property: - Towards East - House of Khetarwasi, Towards West - House of Shashikant Mishra, Towards North - Plot Towards South - Road 10 ft.

Place : Dharora Haryana Date: 20 / 09 /2024

Authorised Office M/s Electronica Finance Limited

NOTICE

Before the Learned 2nd Court, Civil Judge (Senior Division) At Barasat Title Suit No. 710 of 2019

AXSYS TECHNOLOGIES LIMITED, having its Registered Office at "Victoria Park", Level 10, Plot No. 37/2, Block GN, Sector V, Salt Lake City, Electronic Complex, Kolkata- 700091, Police Station North

nnagar, within the jurisdiction aforesaid;

N COMPTECH INTEGRATORS LIMITED, having its registered office at 2IA, Shak Sarani, 3rd Floor, Kolkata-700071.

-Versus-

ABS consulting Group, a Company incorporated under the provisions of the Law of Delaware and having its registered office at 16855 North Chas Drive, Houston TX 77060, USA, outside the aforesaid jurisdiction;

Eqecat Inc., a Company incorporated under the provisions of the Law of Delaware and having ir registe red office at 475, 14"Street, Suite 550, Oakland, CA 94612-1938, USA, outside the jurisdictic . CORELOGIC INC., having its registered office and/or place of business at 40, Pacifica, Suite 90

Irvine, CA 92618, U.S.A. outside the jurisdiction aforesaid.

Notice is hereby given under Order 1 Rule 8 of the Code of Civil Procedure 1908 that the Plaintiffs abovenant ave instituted the suit against the above defendants on or about.....September, 2019 praying for the following

A decree of declaration declaring that the plaintiffs are the absolute owner of the copy rights in respect or Software mentioned in Schedule "A" to the Plaint;

A decree of perpetual injunction restraining the defendants and each one of them from infringing the

plaintiffs copyright and other intellectual property rights in the software mentioned in Schedule ".

A decree of perpetual injunction restraining the defendants, their men, agents and/or servants and each

one of them replicating, selling and/or otherwise dealing with the software mentioned in Schedule "A" to the Plaint: S decree for damages for a sum of Rs. 27 million US Dollars or approximately Rs. 189 crores (Ruper one hundred eighty nine crores) against the Defendants and each one of them:

S decree for damages for a sum of Rs. 27 million US Dollars or approximately Rs. 189 crores (Rupees one hundred eighty nine corres) against the Defendants and each one of them;
A decree for further sum of 50,000 (Rupees Fifty Thousand') US Dollars os. 35,00,000 (Rupees Thirty Five Lakth) per day from date filing of the present suit against the defendants and each one of them;
Alternatively, a decree for an inquiry to be made into the loss and damages suffered by the Plaintiffs from the wrongful and illegal act of infringement of the copy right of the Plaintiffs software and non return of the source code to the plaintiff and a decree for such sum be passed in favour of the plaintiff supon such enquiry being made; Injunction; Receiver;

> Query Edito Reconciliation Tool Risk Based Inspection RISKMAN

Safe Hull

Safe Net

Web Calc

Type Approval

Wce SQLDB Splitter

WORLDCAT Enterprise

Root Cause Analysis

Rules/Rules Dev Brov Rules Editor/RulesDBUtill
 S31Calculation,,.

Scenario Reports/Stochastic Event Report

Worldwide Accounts Receivable Status (WARS)

Training Documentation System(TDS)

Attachmen Attachment before judgment; Judgment upon Admission;

Such further and/or other reliefs. SCHEDULE-A

AP Imagine Auto Invoicing

Auto Invoice printing Auto Test Pandi"" Auto lest Pandi***
Common Structural Rules (Tanker)
Common Structural Rules (Bulk Carrier)
Contact
Container Information System (eCIS)
Engineering Machinery Calculation
oCAT

Hull Maintenance (HIMP/HIMP2D) Input File Generator (IFG) MORSI

Ns5 Suite

Office 2000 Surveyors

Online Directory

HIMP3D NEXTGENSM

Subsequently, in the said suit an application under Order I Rule 8 was filed on or about March, 202[.] nter alia praying for the following-

PART-II

The plaintiffs most humbly prays before the Learned Court that Leave under Order I Rule 8 of the Code of Civi "The plaintiffs most humbly prays before the Learned Court that Leave under Order! Rule 8 of the Code of Civil Procedure, 1908 be granted to the plaintiffs directing the plaintiffs to give notice to all such persons so interested, either by personal service, or, where, by reason of the number of persons or any other cause, such service is not reasonably practicable then by public advertisement AND Ad interim orders in terms of prayers made here in AND such further order and/or orders as this Learne Court may deem fit and proper. The Learned Court upon hearing the said application has been pleased to pass an order on 5" December, 2023 and allowed the prayer of the plaintiffunder Order! Rule 8 of the Code of Civil Procedure. Take further notice that any person or persons who may be interested in the above suit, may by vitrue of the orders dated 5" December 2023, apply to this Learned Court within 15 days from the date of publication of this notice to be made party or partites to the suit and he/she/they is/are being informed that in default there of the suit will be liable to be heard and determined inhis/her/theirabsence.

POSSESSION NOTICE

DCB BANK

The undersigned being the authorized officer of the DCB Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on below mentioned dates calling upon the borrower's **(Borrower's and Co-Borrower's)** to repay the amount mentioned in the notice as detailed below in tabular form with further interest thereon from within 60 days from the date of receip

The borrower and Co-Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, Co-Borrower and the public in general tha the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him unde sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 also r/w section 14(1) of the Security Interest Rules 2002 on as mentioned here below.

The borrower, Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property (Description of the immovable Property) and any dealings with the property will be subject to the charge of the DCB Bank Ltd., for respective amount as mentioned here below. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured

18th September, 2024 Symbolic Possession Date Demand Notice Dated. 11-06-2024 Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) MRS. LILA WOOMPRAKASH and MR. OM PRAKASH DRBLPLI00501650 Loan Account Numbe Rs.11,72,960.56/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Two Thousand Nine Hundred Sixty and Fifty Total Outstanding Amount. Six Paisa Only) as on 11th June 2024 ALL PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING NORTH PART OF HOUSE NO.58, MELA Description of The Immovable Property DARWAJA SITUATED AT HARIJAN BASTI PALI JODHPUR RAJSTHAN, ADMEASURING 836.50 SQ.FTS BOUNDED BYEAST- CHOWK WEST-HOUSE OF MR. BANSILALJI, NORTH-

Date: 21.09.2024 Authorized Office **DCB Bank Limited**

15'9" FT WIDE ROAD, SOUTH-REMAINING PART OF THIS HOUSE (The Secured Assets)

Mahindra

MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIMITED PO Corporate Office: - Mahindra Rural Housing Finance Ltd. Sadhana House, 2nd Floor

570, P.B.Marg Worli, Mumbai 400 018 India, Tel: +91 22 66523500 Fax: +91 22 2497274 Regional Office: Ashoka Raj Tower, 2nd Floor, C.P.162 Sec D LDA Colony, Kanpur Road, Near Power House Chauraha

Lucknow-226005, UP. Branch Office: No. 403, 4th Floor, Business Square, Sector 12, Avas Vikas Colony, Sanjay Place, Agra, Uttar Pradesh 282004

(For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of M/S Mahindra Rural Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "MRHFL"), Having its registered office at **LUCKNOW** and Branch office at **AGRA** under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice being within 60 days rom the date of receipt of the said notice.

The borrower mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower mentioned herein above and to the public in general that undersigned has taken **possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **19-09-2024**

The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of M/S Mahindra Rural Housing Finance Ltd. for an amount and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time

ava	allable, to redeem the secured assets.			
S.N.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Date of Possession
1.	(LC No: 1033751/ XSEMAGR00838589 AGRA Branch) VISHNOO SINGH (Borrower) KRISHNA (Co Borrower) VINOD KUMAR PARMAR (Guarantor)	PART OF PROPERTY NO. 26 KHASRA NO 519 & 520 SHARDA VIHAR COLONY, MAUJA BODLA, AGRA, UTTAR PRADESH- 282007, East:PART OF PLOT NO. 26, West: P4-0 WIDE RASTA , North: PLOT 27, South: PLOT NO. 25	20-00-2021 De	19/09/2024 Physical Possession
F	Place :- AGRA Date:-21.09.2024	Sd/- Authorised Officer Mahindra	Rural Housing Fina	nce Limited

* Edelweiss | ECL

ECL FINANCE LIMITED

City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorized Officer of ECL Finance Limited (ECL) under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read

with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued Demand Notices under section 13(2 of the said Act, calling upon the following Borrower(s)/Co-borrowers/mortgagors/guarantors (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below, the account of the Borrower(s) (the "said Borrower(s)") was rendered NPA on 04.09.2024. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to ECL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with furthe nterest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the Loan Agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repaymen of the Loan, the following Assets have been mortgaged to ECL by the said Borrower(s) respectively.

Name of Borrower(s)/ Co-Borrower(s)	Demand Notice date and amount
(LOAN ACCOUNT NO: L246ECSLP000005230066) 1. Noor Polycon (Borrower & Applicant) 2. Harmeet Singh (Co-Borrower and Co-Applicant) 3. Jagjeet Singh Alias Jagjit Singh (Co-Borrower and Co-Applicant) 4. Decostar (Co-Borrower and	16.09.2024 And of Rs. 3,11,53,181.11/- (Rupees Three Crore Eleven Lakhs Fifty Three Thousand One Hundred Eighty One and Eleven Paise) due as on 12th September,
Co-Applicant) 5. Gurleen Kaur (Co-Borrower	2024.

DESCRIPTION OF THE SECURED PROPERTY: Second Floor Portion of Free-Hold Built-Up Residential Property Bearing No.170, Measuring Area 291.67 Sq. Yds, including common area of the building, consisting of its whole of structure built thereon, with Roof/Terrace rights along with the rights of upper construction upto the last storey as permissible by law, fitted with electricity and tap-water connections alongwith the concerned meters, with common rights to use Entrance/Maingate, Passage, Parking, Stairs, and Other Services which may be common in future, with undivided impartiable, proportionate ownership rights in the land of the plot situated in the layout plan of aviation employees coperative house building society limited, Known As Gagan Vihar, Illaqa Shahdara, Delhi-110051, Boundaries of said property (As per site):- East: Service ane 15"FT., West: Road 40"FT, North: Property No. 169, South: Property No. 171 Note: - More precisely mentioned in Relinquishment Deed dated 24-12-2020 registered in the office of the Sub-Registrar VIIIA Preet Vihar Delhi as Doc No.5462, Book No.1, Vol No.1974 Page. No. 162-165 dated 24-12-2020 SRO-VIIIA.

Details of Secured Property

f the said Borrowers shall fail to make payment to ECL as previously mentioned, ECL shall proceed against the above-secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the previously mentioned assets, whether by way of Sale, Lease c otherwise without the prior written consent of ECL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Ac or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Sd/- (Authorized Officer

For ECL Finance Limited

and Co-Applicant)

Ist floor, Circle Sastra Office Jainur Aimer. Nehru place, Tonk Road, Jaipur 302015 E-mail: cs8244@pnb.co.in, Tel No: 9413360236 SALE NOTICE FOR SALE OF **IMMOVABLE PROPERTIES**

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with proviso to Rule 8(6) & 9(1) with of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

lotice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properl ortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secure will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recover fits dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit vill be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Li n o	Name of the Branch Name of the Account Name & Addresses of the Borrower/Guarantors in the Account	Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagers of property(ies))	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002 (B) Outstanding amount as on (C) Possession Date u/s 13(4 of SARFAESI Act 2002 (D) Nature of Possession	(Rs. in Lacs) (B) EMD (Last Date of Deposit)	Date/Time of E-Auction
,	Ajmer 305814 (Borrower) 2. Sh. Digvijay Singh Shekhawat S/o Sh. Gopal Singh Shekhawat No. 7, Khasra No. 183/3, Village Dardund,	Situated at Plot No. 7, (Including Industrial Shed) Khasra No. 183/3, Vill-Dardun, Teshil Roopangarh, Distt. Ajmer, (Raj.) standing in the name of Sh. Digyijay Singh Shekhawat S/o Sh. Gopal Singh Shekhawat, Sh. Bhawani Singh Chouhan S/o Sh. Babu Singh Chouhan, Sh. Shatrughan Singh Shekhawat S/o Sh. Prahlad Singh & Sh. Porush Bhard Bhardwaj, Area admeasuring 2214.87 Sq. Lot-2 Plant and Machinery and other mc.	B)Rs. 2,05,15,898.73 as of (2,05,15,898.73 as of (2,05,15,15,898.73 as of (2,05,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15) Rs.69,80,000/-) Rs. 6,98,000/-	08.10.2024 From 11.00 AM to 04.00 PM
ı	4 Ch Chatrughan Cinah Chakhawat	S/n Sh Dralahad Singh Address: Dio	t No. 1 Chandana Hou	ica Karni Magar	

4. Sh. Shatrughan Singh Shekhawat S/o Sh. Pralahad Singh Address:- Plot No. 1 , Chandana House, Karni Nagar Queens Road, Jaipur (Partner/Guarantor)

5. Sh. Porush Bhardwai S/o Sh. Rajendra Bhardwai Address: Plot No. 82, Shyam Nagar, Khatipura Road, Jhotwara laipur 302012, 6. Smt. Kiran Kanwar W/o Sh. Bhawani Singh Chouhan Plot No. 268-A, Tagore Nagar, DCM, Ajmer Road Jaipur 302006 (Partner/Guarantor)

Details of the encumbrance known to the secured creditors-Not Known AJMER.NAGRA (416000) All that part and parcel of the Residential A) 13/10/2023 08.10.2024 ABHIJEET MALHOTRA S/O
SANJAY MALHOTRA

Shri Abhijeet Malhotra s/o Sanjay
Malhotra, consisting of land building, structures, erections, installations, etc. situated at House no payable with further 448, EWS, Sector-1, JP Nagar, H.no-448, EWS, Sector-1, JP Nagar, Madar, Interest and expenses

ABHIJEET MALHOTRA S/O
Sanjay Malhotra, consisting of land as on 31/08/2024 + united to the section of th 8.82.000 88 200/ 11.00 AV (07.10.2024) C) Rs. 10,000/-04.00 PN H.no-448, EWS, Sector-1, JP Nagar, From 11.00 AM Bounded by On the East by - Other House Madar Aimer-305001 Rajasthan

D) Physical

to 04 00 PM

On the West By – 40 Ft Rasta On the North By – House no 447 On the South By 449 Details of the encumbrance known to the secured creditors-Not Known

TERMS AND CONDITIONS:- 1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://ebkray.in on 08.10.2024 as per timings mentioned in the table. 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer https://ebkray.in, www.pnbindia.in

Authorized Officer.

Authorized Officer. Punjab National Ba STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai-600015 | Ph: 044-3008166 HINDUJA
HINDUJA
Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai-600015 I Ph: 044-30081663
HOUSING FINANCE 21-22, Upper Ground Floor, Jaipur Electronic Market, Opp. Riddhi Sweets, Gopalpura Bypass, Jaipur- 302018

POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of **Hinduja Housing Finance Limited (HHFL)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice under section 13(2) calling upon the below nentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice alongwith further charges and interest etc. within 60 days from the date of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the indersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002.

Sr. No	Account Number & Name of the Borrowers	Demand Notice Date & Amount (Rs.)	Type of Possession Date & Amount	Description of the Secured Assets	Contact Person Details
	RJ/JPR/VDYN/A00000 0093 1. Mr. Lalit Soni (Borrower) 2. Mrs. Anita Sajna (Co-Borrower)	10/05/2024 & Rs. 36,16,816/- (Rupees Thirty Six Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred Sixteen Only) as on 01/05/2024	17/09/2024 & Rs. 39,35,064/- (Rupees Thirty Nine Lakh Thirty Five	Rounded By: North- Road 30 Feet South-	(Neha Kumawat) –
Th	The borrower's attention is invited to provisions of sub -section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured				

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (6) of section 13 of its Act, in respect of time available, to reduct in the sective assetts. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HHFL alongwith further charges and interest etc. thereon.

(Authorised Office) Hinduia Housing Finance Limited Date: 21.09.2024 Place: Jaipur



Notice

INDIAN OVERSEAS BANK Yamuna Vihar Branch, B-3/48A, Yamuna Vihar, Delhi-110053,

Tel: 011-22919080, Email: iob2249

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [Under section 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.]

Where as the Undersigned being the authorized officer of the INDIAN OVERSEAS BANK, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 07.03.2024 calling upon the legal hier(s) (i) Mr. Vijay Kumal Mishra & (ii) Smt. Julie Mishra D/o Vijay Kumar Mishra, of borrower, Late Smt Indu Devi Mishra, in the loan account (i) Mrs. Indu Dev Mishra W/o Shri Vijay Kumar Mishra, R/ Flat No. FF-3 (First Floor), Back Side, MIG, comprised in property at Plot No. D-8/31 DLF Ankur Vihar, Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad (U.P.) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,90,628/78 (Rupees Thirteen Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Twenty Eight & paise Seventy Eight only) as on 31.12.2023 plus further interest ind other costs/charges etc. till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

he borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules, on the 19th day of SEPTEMBER of the year 2024.

The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount of Rs. 13,90,628/78 (Rupees Thirteen Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Twenty Eight & paise Seventy Eight only) as on 31.12.2023 plus further interest and other costs/ charges etc. with interest hereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of paymen ess repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession is Rs. 14,81,155/38 (Rupees Fourteen Lakhs Eighty One Thousand One Hundred Fifty five & paisa Thirty Eight only) as on 31.08.2024 payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment The borrower's attention is invited to the provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Residential Flat at: Pvt. No. FF-3 (at First Floor, Plot No. 32) comprised in property at Plot No. D-8/31, Road No. D-8, DLF Ankur Vihar Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad (U.P.) owned by SMT. INDU DEVI MISHRA W/o Shri Vijay Kumar Mishra. Boundaries of the property: East: Plot no D-8/32,

North: Road 9 meters wide South: Delhi-LIP Border Line Date: 19.09.2024, Place: Delhi **Authorized Officer, Indian Overseas Bank**



ecured assets 1

SURYA ROSHNI LIMITED

REGD. OFFICE: PRAKASH NAGAR, SANKHOL, BAHADURGARH 124507 (HARYANA)
Corporate Identity Number (CIN) - L31501HR1973PLC007543
Email - investorgrievances@sroshni.com | Website - www.surya.co.in
Phone - 01276 - 241540, Fax - 01276 - 241886

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (the "SS-2") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Surya Roshni Limited ('the Company') is seeking approval from its Members via passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 4th September, 2024 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("remote e-voting") only. n terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the by the Ministry of Corporate Affairs, inter

alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020, 03/2022, 11/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company / Depositories/Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA"). The facility of casting the votes by the members ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Postal Ballot Notice. In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular/s, electronic copies of the Notice of Postal Ballot dated

4th September, 2024 have been sent on 20th September, 2024 to all the members, whose email IDs are registered with the Company, Depository participant(s)/ Company RTA on the cut-off date 13th September, 2024. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot and shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Company www.surya.co.in and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021 /687 dated 14th December, 2021 and circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRS

no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 March 16, 2023 ("Circulars"), has made it mandatory for the shareholders holding ecurities in physical form to furnish PAN, KYC (complete address with pin-code, bank detail with MICR-CODE & IFS CODE, Email-ID, Mobile Number) and Nomination details to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has made it mandatory by rescinded the SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March,

2023 by issuance of Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents dated May 17, 2023 and

SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated November 17, 2023, whereby all dividend payments after March 31, 2024, will b processed only electronically. Further, relevant FAQs have also been published by SEBI on its website at the following web link for nvestor awareness: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf Accordingly members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company RTA/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending duly signed ISR-1, ISR-2, SH-13 or other relevant form (already send to shareholders by speed post) with self-attested scanned copy of the

PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company Company RTA/ for receiving the Notice of Postal Ballot by email to investor@masserv.com. The above said forms are available on the website of the Company at www.surya.co.in and on the Company's RTA's website at www.masserv.com. Members holding shares in emat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of Postal Ballot contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote

e-voting. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system will be provided by NSDL. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 13th September, 2024 may cast their vote electronically on the $Special \ Business\ as\ set\ out\ in\ the\ Notice\ of\ Postal\ Ballot\ dated\ 4^{th}\ September, 2024\ through\ electronic\ voting\ systems\ of\ NSDL.$ In case of any queries, including issues and concerns related to remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)

for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at: 022-48867000 / 022-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre. Sr. Manager. National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in. With a view to safeguard the interests of the investors and to streamline the resolution mechanism in the Indian Securities Market. SEBI

mandated establishment of common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal"), by Market Infrastructure Institutions, which harnesses online conciliation and online arbitration for resolution of disputes arising in Indian Securities Market. The ODR Portal allows the investors/shareholders to enroll themselves, file unresolved grievance, upload documents and get status updates pertaining to the unresolved grievances filed against listed entities/ its RTA.

The process for initiation of Dispute Resolution process is enumerated below:

An investor/client shall first take up his/her grievance with the Market Participant by lodging a complaint directly with the concerned

If the grievance is not redressed satisfactorily the investor/shareholder may escalate the same through the SCORES Porta (www.scores.gov.in) in accordance with SCORES Guidelines.

If the investor/client is still not satisfied with the outcome, he/she can initiate dispute resolution through the ODR Portal, Alternatively the investor/client can initiate dispute resolution through the ODR Portal if the grievance lodged with the concerned Market Participant was not satisfactorily resolved or at any stage of the subsequent escalations (prior to or at the end of such escalation/s). For more information shareholders are requested to visit the web-link: https://smartodr.in/login

All the members are informed that:

1. The Special Business as set out in the Notice of Postal Ballot will be transacted through voting by electronic means only;

6. Aperson who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

2. The remote e-voting shall commence on Monday, September 23, 2024 at 9.00 a.m. (IST); 3. The remote a-voting shall end on Tuesday, October 22, 2024 at 5:00 p.m (IST).;

4. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of

13th September, 2024, may cast their vote by remote e-voting on the Postal Ballot Notice; 5. Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by the NDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently

7. The Board of Directors has appointed Mr. Ankit Singhi, (FCS No. 11685, C.P. No. 16274) Partner, M/s PI & Associates, Practicing Company Secretary (PR No. 1498/2021) failing which Mr. Nitesh Latwal, (ACS No.32109, C.P. No. 16276) Partner, M/s PI 8 Associates acts as the Scrutinizer for conducting the entire postal ballot process in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules;

F. The Scrutinizer will submit its report after the conclusion of remote e-voting but not later than 2 (two) working days form the closing o remote e-voting on 22nd October, 2024; 9. The result of voting will be announced by the Chairperson or by the Company Secretary of the Company or such other person as authorized by them, on receipt of report from the Scrutinizer after the conclusion of remote e-voting but not later than 2 (two) working days form the closing of remote e-voting on 22nd October, 2024. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at www.surya.co.in and simultaneously be communicated to the Stock Exchange Mumbai and National Stock

Exchange of India (NSE) and to NSDL. 10. All relevant documents referred to in the Notice or in the accompanying Statement can be obtained for inspection by writing to the Company at email ID cs@surya.in on all working days till the conclusion of remote e-voting on 22nd October, 2024.

All the shareholders holding shares in physical mode are requested to convert their shares in the Demat mode By Order of the Board

> for SURYA ROSHNI LIMITED B B SINGAL **CFO & COMPANY SECRETARY**

Membership No. ACS-10781

Place: New Delhi Dated: 21st September, 2024 Secured Creditor



बिज़नेस स्टैंडर्ड चंडीगढ़ | शनिवार, 21 सितंबर 2024

एलटीसीजी लाभ का असर

गोल्ड ईटीएफ की बढ़ी चमक

🗝 ल के महीनों में शानदार उछाल दर्ज करने वाले 37,390 करोड़ रुपये के गोल्ड ईटीएफ में निवेश और बढने की संभावना है। इसकी वजह इस धात के लिए मजबूत परिदृश्य के बीच दीर्घावधि पुंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) के फायदे मिलना है। इससे म्युचुअल फंड (एमएफ) की पेशकशों में 'स्मार्ट' मनी आ रहा है।

'स्मार्ट' मनी को मौके की तलाश वाले पूंजी निवेश के तौर पर भी जाना जाता है। यह ऐसा रणनीतिक निवेश होता है जो आमतौर पर अल्पावधि के लिए आता है। प्लान अहेड वेल्थ एडवायजर्स के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विशाल धवन ने कहा, 'छोटी अवधि के कारण गोल्ड ईटीएफ उन निवेशकों के लिए ज्यादा बेहतर हो गया है जो कम समय के लिए खरीदारी और बिक्री की संभावना

बजट में घोषित नए कर नियमों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ से एक साल में होने वाले लाभ उस पर 12.5 प्रतिशत का एलटीसीजी कर लगेगा। अप्रैल 2023 में हटाए जाने के बाद एलटीसीजी लाभ इस साल फिर से दिया गया है। हालांकि इस बार एलटीसीजी के लिए होल्डिंग अवधि 3 साल की अनिवार्यता से काफी कम है जो मार्च 23 तक लागू थी।

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में कमोडिटी प्रमुख और फंड प्रबंधक विक्रम धवन ने कहा, 'हाल के महीनों में निवेश बढ़ा है लेकिन यह पारंपरिक स्वर्ण बाजार का मजह छोटा सा



हुआ गुलजार

- सोने के लिए मजबत परिदृश्य। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड निर्गम न आने से भी गोल्ड ईटीएफ की चमक बढी
- अगस्त में गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़कर 1,611 करोड़ रुपये की सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गया
- बजट में घोषित नए कर नियमों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ से एक साल में होने वाले लाभ उस पर 12.5 प्रतिशत का एलटीसीजी कर लगेगा

(एफओएफ) दो वर्ष बाद ही कराधान के पात्र होंगे।

रुपी विद रुषभ के संस्थापक ऋषभ देसाई ने कहा कि कर के लिहाज से अच्छा न होने के बावजूद खुदरा निवेशकों को एफओएफ विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए। देसाई ने कहा, 'चुंकि ईटीएफ का कारोबार एक्सचेंजों पर होता है। इसलिए गोल्ड ईटीएफ खुदरा निवेशकों के लिए सही विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि कीमतें मांग-आपूर्ति के समीकरण से जुड़ी हैं। ऊंची मांग इन यूनिट की कीमतें संबंधित परिसंपत्तियों की वैल्यू से ऊपर पहुंचा सकती है। कभी कभी इनकी कीमत कम भी हो सकती है, जिससे बाहर निकलने वाले निवेशकों को नकसान हो सकता है। फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) इस जोखिम से कम प्रभावित होते हैं।'

रक्षा शेयरों में फिर लौटी रौनक

मुंबई, 20 सितंबर

रक्षा शेयरों में शुक्रवार को सुधार देखने को मिला। इनमें में पिछले दो महीने से तेज गिरावट आ रही थी। कोचीन शिपयार्ड का शेयर 10 फीसदी चढ़ा जबकि गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और पारस डिफेंस ऐंड स्पेस टेक्नोलॉजी में 5 फीसदी या ज्यादा की तेजी दर्ज हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा क्षेत्रों में दिलचस्पी शायद बढ़ी है क्योंकि गिरावट ने एक हद तक मृल्यांकन को कम कर दिया है। बाजार में तेजी के माहौल ने भी इस क्षेत्र में खरीद को मजबती दी।

ओम्नीसाइंस कैपिटल के सीईओ विकास गप्ता ने कहा कि यह फेड की दर कटौती पर प्रतिक्रिया है और शानदार मौके की संभावना के कारण निवेशक दांव लगा रहे हैं। कुछ निवेशकों ने शायद सोचा होगा कि गिरावट अब पूरी हो चुकी है और उन्होंने इस थीम पर फिर खरीदारी शुरू कर दी है।

कोचीन शिपयार्ड के शेयर में तेजी इसे एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने के कारण भी आई। इंडेक्स में इसे शामिल किए जाने से रक्षा दिग्गज में 3 करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है। शुक्रवार की तेजी के बावजूद ज्यादातर रक्षा शेयर तीन महीने की अवधि में 27 फीसदी तक नीचे हैं। भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस ऐंड स्पेस टेक्नोलॉजिज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस अवधि में सबसे ज्यादा टटे थे।

ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने इन शेयरों की बिकवाली की रेटिंग दी थी क्योंकि इनके भाव काफी बढ़ गए थे। जब कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई तो इनका पीई अनुपात भी काफी बढ़ गया। यह तेजी शुरू में भारत में रक्षा विनिर्माण पर सरकार के जोर और इसके चलते ऑर्डर बुक में तेजी के कारण हुई। एक साल की अवधि में कई रक्षा शेयर 100 फीसदी से ज्यादा चढ़े हैं। कोचीन शिपयार्ड में सबसे ज्यादा 246 फीसदी की

एफटीएसई के साथ जुड़े दर्जनों शेयर

SURYA

एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड और

इस कवायद के बाद भारत में शेयरों 1 अरब डॉलर निवेश आने की उम्मीद है। एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड सूचकांक में जुड़ने वाले 13 शेयरों

में 10 प्रतिशत तेजी आई वहीं, हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और लॉयड्स मेटल्स ऐंड एनर्जी में क्रमशः 8.9 प्रतिशत, 6.8 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तेजी आई।

बीएस संवाददाता बाद ये शेयर इनके साथ जुड़े हैं। यह में 9 फायदे में रहे। कोचीन शिपयार्ड पनसंतलन साल में दो बार होता है। मुंबई, 20 सितंबर आईआईएफएल रिसर्च के अनसार

एफटीएसई ऑल कैप सचकांकों में शक्रवार को दर्जनों शेयर जुड़ गए। इन दोनों सूचकांकों में पुनर्संतुलन के

एजीआर आदेश: वोडा आइडिया पर विश्लेषक विभाजित

निकिता वशिष्ठ नई दिल्ली, 20 सितंबर

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के संबंध में दूरसंचार कंपनियों की सुधारात्मक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हो जाने के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि न्यायालय का निर्णय भावनात्मक रूप से नकारात्मक है लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि स्पष्ट निर्णय से शेयर से जुड़ा गतिरोध समाप्त हो गया है और वोडाफोन आइडिया के

लिए आगे की राह स्पष्ट हो गई है। नोमरा के उपाध्यक्ष (शोध विश्लेषक) हेमांग खन्ना ने कहा, 'भारी कर्ज बोझ (लेकिन सरकार की मदद से प्रबंधन योग्य) के बावजूद वोडाफोन आइडिया तेजी से सुधार दर्ज करने और आगामी वर्षों में भारतीय दुरसंचार उद्योग के मजबत भविष्य में भागीदार बनने में सक्षम होगी।'गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर के संबंध में लिए दुरसंचार कंपनियों की

याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसका 'स्व-मूल्यांकित' बकाया एजीआर 21,533 करोड़ रुपये है जबिक दुरसंचार विभाग ने अनुमानित 58,300 करोड़ रुपये बताया था। कर्ज में डूबी इस कंपनी ने अब तक 7,900 करोड़ रुपये का भगतान किया है। वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही में, वोडाफोन आइडिया ने बकाया एजीआर के तौर पर 70,300 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 139,200 करोड़ रुपये रखे हैं। तिमाही के अंत में उसका कुल बकाया 2.1 लाख करोड़ रुपये था।

कोष जुटाने की योजना से 7

फीसदी चढ़ा मैनकाइंड फार्मा

दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा का शेयर दिन के कारोबार में बीएसई पर 7

प्रतिशत चढ़कर 2,596 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पूंजी जुटाने

पर विचार के लिए आज हुई बोर्ड बैठक से पहले इस शेयर में यह तेजी

देखी गई। मैनकाइंड फार्मा ने एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि कंपनी के

निदेशक मंडल की बैठक 20 सितंबर को होगी, जिसमें एनसीडी, वाणि

ज्यिक पत्रों. अन्य ऋण प्रतिभृतियों के जरिये कोष जुटाने को मंजूरी दी

जाएगी। 5 अगस्त से मैनकाइंड फार्मा का शेयर 36 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी

द्वारा वित्त वर्ष 2025 की जुन तिमाही में शानदार प्रदर्शन किए जाने के बाद

उसके शेयर में यह तेजी आई है। शक्रवार को कंपनी के शेयर में आई बडी

तेजी से उसका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

कंपनी ने 9 मई 2023 को शेयर बाजार में प्रवेश किया था। मौजूदा समय

में मैनकाइंड फार्मा का शेयर 1,080 रुपये के अपने निर्गम भाव से 140

प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा ने 25 जुलाई 2024

को भारत सीरम्स ऐंड वैक्सींस लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब

हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर नई ऊंचाई पर

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयुएल) का शेयर मजबूत मांग परिदृश्य के साथ

शुक्रवार को दिन के कारोबार में भारी कारोबार के बीच 2.5 प्रतिशत चढ़कर

2,983 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले 6 महीनों में, इस कंपनी

13.630 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की थी।

का शेयर 34 प्रतिशत चढ़ा है।

वोडा आइडिया ने निवेशकों की आपात बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 20 सितंबर

वोडाफोन आइडिया ने 23 सितंबर को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में हाल की घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। दूरसंचार कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है। बैठक बुलाने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के बकाया एजीआर की पुनः गणना से जुड़ी चिंताओं

हिस्सा है। पारंपरिक बाजार लगभग 3-4

लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। फंडों

के रास्ते और कर ढांचे में बदलाव और

सकारात्मक परिदृश्य से भविष्य में ईटीएफ में

अगस्त में गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढकर

1,611 करोड़ रुपये की सर्वाधिक ऊंचाई पर

पहंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि रिटेल

निवेश का प्रवाह भी तेज हो सकता है, लेकिन

यह इस पर निर्भर करेगा कि सरकार सॉवरिन

गोल्ड बॉन्डों (एसजीबी) बंद करती है या

नहीं। उनका कहना है कि एसजीबी पर मिलने

वाला अतिरिक्त ब्याज उन्हें ईटीएफ के

मुकाबले ज्यादा आकर्षक विकल्प बनाता है।

फिरोज अजीज ने कहा, 'जहां गोल्ड ईटीएफ

12 महीने की अपनी संक्षिप्त एलटीसीजी हो

आनंद राठी वेल्थ में उप मुख्य कार्याधिकारी

ज्याद निवेश की संभावना है।'

के बीच कई दुरसंचार ऑपरेटरों (वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत) की याचिकाएं खारिज किए जाने के एक दिन बाद लिया गया है।

ल्डिंग अवधि की वजह से आकर्षक लग

सकते हैं, वहीं एसजीबी अब भी कई निवेशकों

के लिए पसंदीदा विकल्प बने हुए हैं। एसजीबी

सोने की कीमतों में संभावित वृद्धि का न सिर्फ

लाभ मुहैया कराते हैं बल्कि 2.5 प्रतिशत

सालाना ब्याज और परिपक्वता पर पंजीगत

धवन ने कहा कि निवेशकों को अल्पावधि

के नजरिए से सोने में निवेश करने के लिए

एलटीसीजी कराधान की कम होल्डिंग अवधि

से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा,

'परिसंपत्ति वर्ग के तौर पर सोने में उतार-

चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए 1 वर्ष या 2 वर्ष

की समय-सीमा ठीक नहीं है। यह दीर्घावधि

के लिए है।' एक साल की एलटीसीजी हो

ल्डिंग अवधि सिर्फ गोल्ड ईटीएफ के लिए

लागू है क्योंकि गोल्ड फंड ऑफ फंड्स

लाभ पर कर छट भी प्रदान करते हैं।'

यह फैसला वित्तीय रूप से संकटग्रस्त वोडाफोन आइंडिया के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उस पर भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपये का शुल्क बकाया है। भारी कर्ज के बोझ से दबी कंपनी को अदालत के फैसले के बाद अनिश्चितता का सामना विश्लेषकों का मानना है कि ज्यादा एबिटा के लिए कंपनी को ज्यादा दरें बढाने की जरूरत होगी जिससे उसकी बाजार भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

निवेश रणनीति

इन चिंताओं के बीच गुरुवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 19.7 प्रतिशत गिर गया था और शुक्रवार को दिन के कारोबार में इसमें 5.6 प्रतिशत की कमजोरी आई। हालांकि कारोबार के अंत में यह गिरावट से उबरने में कामयाब रहा।

प्रतिभूत आस्तियों का वर्णन

(अचल सम्पत्ति)

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खेवट नंबर 55,

वतौनी नंबर 74, खसरा नंबर 127 0 90 373 0 4 वीपीओ

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

सितंबर 2025 में केंद्र की मौजूदा मोहलत समाप्त होने के बाद वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 में 29,000 करोड़ रुपये और मार्च 2027 में 43,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना

वोडाफोन आइडिया के लिए

आगामी राह

नोमुरा के अनुमान के अनुसार वोडाफोन आइंडिया वित्त वर्ष 2019 के फैसले की समीक्षा के 2026 में 22,400 करोड़ रुपये का एबिटा दर्ज कर सकती है जिसका इस्तेमाल थोड़ा सरकारी बकाया निपटाने में किया जा सकेगा।

> यदि कंपनी 12.000 करोड़ रुपये के बकाया को इक्विटी में तब्दील करती है तो वह अपने एबिटा के जरिये शेष 17.000 करोड रुपये चुकाने में सक्षम हो सकती है।

> ब्रोकरेज ने कहा, 'वित्त वर्ष 2027 में वोडाफोन आइडिया के 16,100 करोड़ रुपये एबिटा हासिल करने का अनुमान है। यदि कंपनी 17,000 करोड़ रुपये के बकाया को इक्विटी में तब्दील करती है और शेष 26,000 करोड़ रुपये अपने एबिटा के जरिये चुकाती है तभी वह सभी बकाया से मुक्त हो सकेगी।' हालांकि

कर्जदार/सह–कर्जदार

एवं गारंटर का नाम

(ऋण कोड सं. 09500000126 / हिसार शाखा)

राजेश प्रताप (कर्जदार)

कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069

हिसार शाखा : दुकान नंबर – 86, द्वितीय तल, कॉमर्शियल अर्बन एस्टेट–।।, दिल्ली रोड, हिसार–125001 (हरियाण **करनाल शाखा :** एससीओ 334, प्रथम तल, मुगल कनाल, करनाल–132001, (हरियाणा)

पानीपत शाखा : प्लॉट नंबर — 247 — 248. द्वितीय तल. पियाजियो शोरूम के ऊपर, सभाष नगर, तहसील कैम्प, जी.टी. रो

टियाला शाखाः बी—17 / 423, द्वितीय तल, सेठी कॉम्प्लेक्स, पोलो ग्राउंड के सामने, मोदी कालेज चौक, लोअर मॉल, पटियाला—147001 (पंजाब) **चंडीगढ़ शाखा :** एस.एस.एन टावर्स, द्वितीय तल, एस.सी.ओ—23, अम्बाला—जीरकपुर रोड, निकट कार्पोरेशन बैंक, जीरकपुर, जिला मोहाली—140603 (पंजाब)

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ संपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टवेशन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेटेस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कोनून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित पिक्यप्रिटी संदेस्ट (संफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत पटन शक्तियों का उपयोग करते हुए पाधिकत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीने वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ऑ) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ऑ)) को संबंधित मांग सूचना (ऑ) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सुचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भगतान की दिनांक एवं / या पुर्नप्राप्ति तक लाग मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो / लिखित में यदि कोई हो , के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें । जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

12-08-2024

	सुमन राजेश (सह–कर्जदार) कमल संत लाल (गारंटर)	₹ 11,19,991/-	सिवाच, तहसील सिवानी, भिवानी, हरियाणा—125046
2	(ऋण कोड सं. 09500000604 / हिसार शाखा) गौरव (कर्जदार), संतोष देवी (सह—कर्जदार), राजेश कुमार और शमशेर (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 8,48,724/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबर 11067 1 0 खेवट नंबर 521 मिन, ग्राम दानोदा कलां, तहसील नरवाणा, जिला जींद, हरियाणा—126116
3	(ऋण कोड सं. 09510000050 / हिसार शाखा) संदीप पुत्र रामजी लाल (कर्जदार), राम जी लाल एवं सावित्री पत्नी राम जी लाल (सह—कर्जदार),	12-08-2024 ₹ 12,57,083/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति नंबर 368/14 20 फीट कृष्णा कालोनी, हांसी हिसार, हरियाणा—125033
4	(ऋण कोड सं. 3070000206 / करनाल शाखा) अनिल कुमार (कर्जदार) रेखा रानी (सह–कर्जदार)	12-08-2024 ₹ 6,55,782/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खेवट नंबर 227 228 229 230 पीपीआईडी नंबर : 73सी630यू628, वार्ड नंबर 3, अर्जुन नगर मलिक नगर, पट्टी अफगान चीका बाईपास रोड, कैथल, हरियाणा–136027
5	(ऋण कोड सं. 0960000286 / पानीपत शाखा) अजय कुमार (कर्जदार) सीमा रानी एवं राज बाला (सह–कर्जदार) रंजीत एवं कुलदीप सिंह (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 6,29,842/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबर 29 6 1 6 2 7 8 ग्राम सोंधापुर वार्ड नंबर 18, शिव मंदिर गव. हाई स्कूल, तहसील पानीपत, हरियाणा—132052
6	(ऋण कोड सं. 0960000289 / पानीपत शाखा) चांद राणा (कर्जदार) मनीषा देवी एवं बलबीर कुमार (सह—कर्जदार) सोनू (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 2,65,202/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: सम्पत्ति डीड में वर्णित नहीं, शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 19, खेवट नंबर 2601, खतौनी नंबर 4092, निकट ट्रीटमेंट प्लांट, करनाल, हरियाणा—132001
7	(ऋण कोड सं. 0960000332 / पानीपत शाखा) बिजेन्दर सिंह (कर्जदार) सरोज देवी (सह-कर्जदार) विकास एवं कृष्ण कृमार (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 12,40,978/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: सम्पत्ति डीड में वर्णित नहीं, ग्राम रामड़ा तहसील गोहाना, जगन्या पन्ना खेवट नंबकर 225 मिन, खतौनी नंबर 296, निकट रविदास मंदिर कुआ, सोनीपत, हरियाणा—131105
8	(ऋण कोड सं. 0960000455 / पानीपत शाखा) परवीन पुत्र टेक राम (कर्जदार) नीरज पत्नी परवीन (सह-कर्जदार) कुलदीप एवं दिनेश (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 10,48,727/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति डीड में वर्णित नहीं, मकान नंबर 835, रामचंद पन्ना निकट पोस्ट आफिस, गोली वाला कुआ ग्राम बल्लाह, तहसील असांध, करनाल, हरियाणा—132039
9	(ऋण कोड सं. 1020000310 / पटियाला शाखा) पंकज पृथ्वी सिंह (कर्जदार) ज्योति पंकज (सह-कर्जदार) श्याम सुंदर शर्मा (गारंटर)	12-08-2024 ₹ 5,00,752/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति आईडी नंबर 27सी1168यू16 पट्टी गद्दर गली नंबर 06, अमरगढ़ कालोनी, निकट अमर माडल स्कूल, कैथल, हरियाणा—132020
10	(ऋण कोड सं. 1020001039 / पटियाला शाखा) सुजीत (कर्जदार) रीमा (सह—कर्जदार)	12-08-2024 ₹ 8,64,901/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति 54 19 1 5 18 किता 1 हंस नगर मकान के नंबर 54 19 गली नंबर 1 डब्ल्यू नंबर 17 हंस नगर चीका निकट पेहोवा रोड, कैथल, हरियाणा—136034
11	(ऋण कोड सं. 10100000074 एवं 10100000075/	12-08-2024	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मकान नंबर 250

ादि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पर्ण जोखिम मल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानन के अंतर्गत संपत्ति का विकय. किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधान का उल्लंधन या उल्लंधन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा

₹2,84,518/- &

₹ 7,64,009/-

दिनांक : 21.09.2024

ागनदीप (कर्जदार). सोनिया गगनदीप एवं

बलविंदर सिंह (सह–कर्जदार)

अम्बाला शाखा)

वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दान शाहबाद, कुरूक्षेत्र, हरियाणा–136118

। मकान नंबर 250 11 वार्ड नंबर 11 वाका मोहल्ला रे

रेट पहचान संख्या (सीआईएन) - L31501HR1973PLC007543 ई-मेल : investorgrievances@sroshni.com | वेबसाइट : www.surya.co.in दूरभाष : 01276 - 241540, फैक्स : 01276 - 241886

पोस्टल बैलट तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों ("अधिनियम"), सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सचीबद्धता विनियम''), भारतीय कम्पनी सचिवीय संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 (एसएस-2) एवं अन्य प्रयोज्य काननों तथ विनियमों, यदि कोई हो, सहित यथाप्रचलित अन्य विधिक संशोधन(नों) या पनर्अधिनियमन(नों) के प्रावधानों के अनसार पोस्टल बैलट सचना दिनांक 4 सितम्बर, 2024 ("**पोस्टल बैलट नोटिस**") में निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने के करने के लिए सुया रोशनी लिमिटेड ('कम्पनी') केवल इलेक्टॉनिक वोटिंग ("रिमोट **ई-वोटिंग**") द्वारा अपने सदस्यों का अनमोदन चाहती है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य परिपट्ट

सं. 14/2020, 03/2022, 11/2022 तथा 09/2023, कमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 एवं 25 सितम्बर 2023 (''एमसीए परिपत्र'') के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलट संचालित करने हेत रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित निर्देश सहित पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार/कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट ("**आरएण्डटीए**") के साथ पंजीकत हैं। सदस्यों द्वारा मतदान की सविधा ("**रिमोट ई-वोटिंग**") नेशनल सिक्योरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और इसकी विस्तत पुक्रिया पोस्टल बैलट सचना में प्रदान की जायेगी। सेबी परिपत्रों के साथ पठित कथित एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट सूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2024 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ 20

सितम्बर, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (''**आरएण्डटीए**'') के साथ कट-ऑफ तिथि 13 **सितम्बर**, 2024 तक दर्ज हैं। एमसीए परिपत्रों की अपेक्षाओं के अनुपालन में पोस्टल बैलट फॉर्म और पीपेड बिजनेस लिफाफा के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक पति शेयरधारकों को इस पोस्टल बैलेट के लिए नहीं भेजा जाएगा और शेयरधारकों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमित या असहमित का संचार करना अपेक्षित है। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.surya.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं।

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37, 16 मार्च, 2023 के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 ('परिपत्र') के माध्यम से भौतिक रूप में प्रतिभृतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पैन, केवाईसी (पूर्ण पता, पिन-कोड, एमआईसीआर-कोड और आईएफएस कोड के साथ बैंक विवरण, ईमेल-आईडी, मोबाइल नंबर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

2023 जारी करके सेबी के परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 दिनांक 17 नवंबर, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 और SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 को रद्द करके यह अनिवार्य कर दिया कि 31 मार्च, 2024 के बाद सभी लाभांश भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए जाएंगे। इसके अलावा, निवेशक जागरूकता के लिए सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब लिक: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf पर प्रासंगिक एफएक्यू भी प्रकाशित किए गए हैं। तदनुसार, जो सदस्य भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी आरटीए/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र अपने ई-मेल पते पंजीकृत कराने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आईएसआर-1. आईएसआर-2, एसएच-13 या अन्य प्रासंगिक फॉर्म (शेयरधारकों को पहले ही स्पीड पोस्ट से भेजा जा चुका है) के साथ पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी/कंपनी आरटीए/के पास पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति भेजकर ई-मेल द्वारा investor@masserv.com पर पोस्टल बैलट की सूचना प्राप्त करें। उपर्युक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.surya.co.in और कंपनी के आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com पर उपलब्ध हैं।

पोस्टल बैलेट की सूचना में उस तरीके के बारे में निर्देश होंगे जिससे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। कट-ऑफ तारीख यानी 13 **सितम्बर**, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल के इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 4 **सितम्बर** 2024 के पोस्टल बैलट की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित मुद्दों और पूछताछ सहित किसी भी प्रश्न के मामले में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders का संदर्भ लें या 022-48867000/022-24997000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउँड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से निर्दिष्ट ईमेल पतेः pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

निवेशकों के हितों की रक्षा करने और भारतीय प्रतिभृति बाजार में समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्कर संस्थानों द्वारा सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ('ओडीआर पोर्टल') की स्थापना को अनिवार्य किया है, जो भारतीय प्रतिभृति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करता है। ओडीआर पोर्टल निवेशकों,शेयरधारकों को खद को नामांकित करने. अनसलझे शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज अपलोड करने और सचीबद्ध संस्थाओं/इसके आरटीए के खिलाफ दायर अनसुलझे शिकायतों से संबंधित स्थिति अपडेट प्राप्त करने की अनुमित देता है।

विवाद समाधान प्रक्रिया शरू करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है: 🗲 एक निवेशक/ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बाजार सहभागी के पास सीधे शिकायत दर्ज करके अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।

🗲 यदि शिकायत का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है तो निवेशक/शेयरधारक स्कोर्स दिशानिर्देशों के अनसार स्कोर्स पोर्टल (www.scores.gov.in) के माध्यम से इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

यदि निवेशक/ग्राहक अभी भी परिणाम से संतृष्ट नहीं है, तो वह ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि संबंधित बाजार सहभागी के साथ दर्ज की गई शिकायत संतोषजनक ढंग से हल नहीं हुई थी या बाद की वृद्धि के किसी भी चरण में (ऐसी वृद्धि के पहले या अंत में) निवेशक/ग्राहक ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शरू कर सकते हैं। अधिक

जानकारी के लिए शेयरधारकों से वेबलिंक https://smartodr.in/login पर जाने का अनुरोध किया जाता है सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

1. पोस्टल बैलट की सचना में निर्धारित विशेष कार्य केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जाएगा:

2. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी

3. रिमोट ए-वोटिंग **मंगलवार. 22 अक्टबर. 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)** समाप्त होगी 4. इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास 13 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तारीख के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैटरियलाडज्ड

प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है:

रूप में शेयर हैं. पोस्टल बैलेट नोटिस पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं: 5. सदस्य ध्यान दें कि एनडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा

और एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी

6. एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सुचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए; 7. निदेशक मंडल ने श्री अंकित सिंघी, (एफसीएस नं. 11685, सी.पी. नं. 16274) पार्टनर, मैसर्स पीआई एण्ड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (पीआर नं. 1498/2021), जिनकी अनुपस्थिति में श्री नितेश लटवाल, (एसीएस नं. 32109, सीपी नं. 16276) पार्टनर,

मैसर्स पीआई एंड एसोसिएट्स को अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण पोस्टल बैलट

8. मतदान समाप्त होने के बाद लेकिन अधिकतम 22 अक्टूबर, 2024 को कार्य समय की समाप्ति से अधिकतम 2 (दो) कार्यकारी दिनों के भीतर संवीक्षक अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तत करेगा:

9. रिमोट ई-वोटिंग के समापन के बाद संवीक्षक से रिमोट ई-वोटिंग के समापन के बाद लेकिन 22 अक्टबर. 2024 को रिमोट ई-वोटिंग के समापन से अधिकतम 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने पर, वोटिंग के परिणाम की घोषणा चेयरपर्सन या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.surya.co.in पर रखे जाएंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और एनएसडीएल को सुचित किया जाएगा।

10. नोटिस या संलग्न विवरण में संदर्भित सभी प्रासंगिक दस्तावेज 22 **अक्टूबर**, 2024 को रिमोट ई-वोटिंग के समापन तक सभी कार्य दिवसों में कंपनी को ईमेल आईडी cs@surya.in पर लिखकर निरीक्षण के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट मोड में परिवर्तित करें।

> सर्य रोशनी लिमिटेड के लिए ती ती ग्रिंगल सीएफओ और कंपनी सचिव सदस्यता संख्याः एसीएस-10781

बोर्ड के आदेशानसा

दिनांक: 21 सितम्बर, 2023 स्थानः नई दिल्ली

स्थान : हरियाणा

सही / – प्राधिकत अधिकारी